



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-03.01.2023

थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा लूट की 01 अदद पल्सर मोटर साइकिल बरामद

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के पर्यवेक्षण में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-404/22 धारा 307/394 भादवि से संबंधित फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु की जा रही पतारसी/सुरागरसी के दौरान यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ललन सिंह व अन्य सीताराम नर्सरी के गली में पुनवासी पटेल पुत्र स्व0 सीताराम पटेल नि0 शिवदासपुर मण्डुवाडीह थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी के मकान में किराया पर रुम लेकर रहते थे। उक्त रुम की तलाशी ली गई तो रुम के अन्दर से एक पल्सर मो0सा0 जिसका इंजन नं0 व चेसिस नं0 क्रमशः DHYRJD17233 व MD2A11CY8JRD42394 बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में जांच की गयी तो मो0सा0 का ओरिजिनल रजि0 नं0 UP67X4832 पाया गया, जिसको अभि0गण ने दिनांक 01.11.2022 को सकलडीहा थाना क्षेत्र में लालब्रत चौहान को गोली मारकर लूट लिया था तथा जिसके सम्बन्ध में थाना सकलडीहा में मु0अ0सं0 0191/22 धारा 307/394 भादवि पंजीकृत है। लूट की उक्त मोटर साइकिल को कब्जा पुलिस में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-08.11.2022 को थाना रोहनिया क्षेत्र में उ0नि0 अजय कुमार यादव को गोली मारकर उनकी सरकारी पिस्टल कारतूस बदमाशों द्वारा लूट लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना रोहनिया पर मु0अ0सं0-404/22 धारा 307/394 भादवि पंजीकृत हुआ। उक्त घटना के अनावरण व पिस्टल बरामदगी का दायित्व SIT गठित कर SIT प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र सिंह को दिया गया था। विवेचना के दौरान तीन अभिक्त 1.मनीष सिंह, 2.रजनीश सिंह, 3.ललन सिंह पुत्रगण शिवशंकर सिंह नि0गण ग्राम आनन्द गोलवा थाना मोहीउद्दीन नगर जनपद समस्तीपुर बिहार प्रकाश में आये थे। दिनांक-21.11.2022 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभि0 1.मनीष सिंह व 2.रजनीश सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गये थे, जिनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी और अभियुक्त ललन सिंह मौके से फरार हो गया था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा हर संभावित ठिकाने पर लगातार दबिश दी जा रही है।

बरामदगी का विवरण- लूट की 01 अदद पल्सर मो0सा0 जिसका इंजन नं0 व चेसिस नं0 क्रमशः DHYRJD17233 व MD2A11CY8JRD42394 बरामद।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

